



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934

No. 374]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

क्र.आ. 405(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, “धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“14. डॉ. गिरीश एस. पटेल, स्वामी विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिदसर रोड, भावनगर	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात	14 सितम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं होता है, अथवा जब तक वह महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर, विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात की होम्योपैथी संकाय का सदस्य नहीं रह जाता है।”

[फा. सं. जेड. 28016/2/2003-एचपीसी]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का. आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2016(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2012 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 405(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) number S.O. 482 (E), dated, the 6th August, 1974, namely:—

In the said notification, in the Table, under the heading, “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“14 Dr. Girish S. Patel, Swami Vivekanand Homoeopathic Medical College & Hospital, Sidsar Road, Bhavanagar.	Maharaja Kirshnakumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar, Gujarat.	With effect from the 14th day of September 2012 for a period of five years, or until his successor has been duly elected, or till he ceases to be a member of the Faculty of Homoeopathy of Maharaja Krishnakumar Singh Bhavnagar University, Bhavnagar, Gujarat.”

[F. No. Z-28016/2/2003-HPC]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published *vide* number S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974 and last amended *vide* number S. O. 2016 (E) dated the 3rd September, 2012.